



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 248]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 1977/आषाढ़ 29, 1899

No. 248]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 1977/ASADHA 29, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 20th July 1977

G.S.R. 534(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts articles falling under Heading No. 18.01/06 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from payment of so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 60 per cent *ad valorem*.

[No. 160/F. No. 355/158/77-Cus.I]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएँ

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1977

सांकांनि० 534 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 18.01/06 के अन्तर्गत सम्मिलित वस्तुओं को, जब

(1529)

उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची, में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देनी है, जो मूल्य के 60 प्रतिशत से अधिक है।

[म० 160 फा० सं० 355/158/77-सी०शु०-I]

G.S.R. 535(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No 431-Customs, dated the 1st November, 1967, namely —

In the Table annexed to the said notification, for serial No. 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely —

(1)	(2)	(3)	(4)
"5	Cocoabeans	18.01/06	45 per cent <i>ad valorem</i> ."

[No. 161/F. No. 355/158/77-Cus. I]

M JAYARAMAN, Under Secy.

सा०का०नि० 535 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क, अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 431- सीमा-शुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम सं० 5 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"5.	कोकोकाबीन	18. 01/ 06	मूल्य का 45 प्रतिशत"

सं० 161/फा० सं० 355/158/77-सी०शु०-I]

एम० जयरामन, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977